

**SOG व थाना सदर बाजार की संयुक्त पुलिस टीम ने सरस्ते दरो पर लोन का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का**

**किया पर्दाफाश, 05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार ।**

पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद मे अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन मे तथा प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार के कुशल नेतृत्व में कार्यवाही करते हुए थाना सदर बाजार पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई ।

दिनांक 16.12.20 को व0उ0नि0 श्री संजय कुमार मय हमराही पुलिस बल के चैकिंग संदिग्ध/व्यक्ति वाहन मे मामूर थे जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की कुछ लोग लोन का झांसा देकर ठगी कर रहे है तो पुलिस टीम बताये गये मो0 यामीन का मकान का ऊपरी तल मो0 तारीन बहादुरगंज पर छापेमारी की गयी तो वहां मौजूद 05 व्यक्तियों द्वारा श्रीराम फाइनेन्स कम्पनी का मालिक बताते हुए लोगो से फोन पर वार्ता कर लोगो को एक लाख से बीस लाख रुपये के होम लोन,पर्शनल लोन,कार्य लोन को मात्र चार प्रतिशत की दर का झांसा देकर ग्राहको से 2500/- रुपये रजि0 फीस व रजिस्टर्ड होने के उपरान्त ग्राहको से 7000/- रुपये एकाउन्ट एवडेसन के लेना फिर सौदा तय होने पर अपने मोबाइल (जिससे ग्राहको को काल करके पैसे लेते थे) को बन्द कर लेते थे। सूचना पर कार्यवाही करते हुए तत्काल मौके पर पहुँचकर उपरोक्त पाँचो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा अभियुक्तगणो के विरुद्ध थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर पर मु0अ0सं0 715/2020 धारा 419/420/406/467/468/471/120B भादवि का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही अमल में लायी गयी ।

**पूछताछ का विवरण:-**

अभियुक्तो द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग ग्राहक से फोन पर कम ब्याज पर लोन देने का झांसा देकर उनसे 2500/- रुपये रजिस्टेशन व 7000/- एवडेसन के नाम पर रुपये ले लेते थे तथा उसके बाद अपना कॉल करने वाला नम्बर बंद कर लेते थे । पूछताछ मे यह भी प्रकाश मे आया कि गिरफ्तार अभियुक्त अंकित व फरार अभियुक्त उपेन्द्र अपने एकाउण्ट मे ग्राहको से पैसा मंगवाते थे ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण: -**

1. सौरभ कुमार पुत्र राजेश कुमार नि0 ग्राम मुरछी थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर
2. सौरभ उर्फ कृष्णा सिंह पुत्र मनोज सिंह ग्राम मुडिया पवार थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर
3. राहुल पुत्र रूकमंगल नि0 ग्राम झबरा पुरवा थाना कोतवाली देहात जनपद हरदोई
4. अंकित गंगवार पुत्र धर्मेन्द्र गंगवार नि0 ग्राम खानपुर थाना फरीदपुर जनपद बरेली
5. विमल पुत्र रामचैला नि0 बडियान पुरवा थाना कोतवाली शहर हरदोई

**नाम पता फरार अभियुक्तगण-**

1. अमित पुत्र राम सागर नि0 झबरा पुरवा थाना कोतवाली देहात जिला हरदोई
2. उपेन्द्र पुत्र नामालूम निवासी ग्राम काशिमपुर खेडी थाना बडौत जनपद बागपत

**बरामदगी -**

- एक अदद लैपटाप HP कम्पनी
- 10 रजि0, एक डायरी, एक फाईल, 900 बिजिटिंग कार्ड, 20 अदद मोबाइल फोन भिन्न भिन्न कम्पनी के व ATM भिन्न भिन्न कम्पनी के तथा मेमोरी कार्ड, ग्रीन पेडियम, तथा एक बाईस लोगर मय चार्जर, 12 मोबाईल चार्जर, एक एडेप्टर HP कम्पनी मय दो एक्सटेंशन बोर्ड

**आपराधिक इतिहास -**

1. सौरभ उर्फ कृष्णा सिंह पुत्र मनोज सिंह ग्राम मुडिया पवार थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर
- 1.मु0अ0सं0 489/2020 धारा 366 भादवि थाना चौक कोतवाली जिला शाहजहाँपुर  
शेष अभियुक्तगणो के आपराधिक इतिहास के बारे मे पता किया जा रहा है।

**पुलिस टीम -**

1. SSI श्री संजय कुमार थाना सदर बाजार शाह0
2. उ0नि0 श्री आशीष पुनिया चौकी प्रभारी उस्मानबाग थाना सदर बाजार शाह0
3. का0 261 अतुल कुमार थाना सदर बाजार शाह0
4. का0 1986 नरेश कुमार थाना सदर बाजार शाह0
5. का0 1408 कपिल ठाकुर एसओजी शाहजहाँपुर
6. का0 1435 दिलीप कुमार एसओजी शाहजहाँपुर
7. का0 1405 तौसीफ हेदर एसओजी शाहजहाँपुर
8. का0 166 उदयवीर सिंह एसओजी शाहजहाँपुर
9. का0 1982 शिवम कुमार सर्विलांस शाहजहाँपुर ।